



November 14, 2022

To,

BSE Limited Listing Department

25th Floor, P J Towers,

Dalal Street

Mumbai -400001

Stock Code. **500456**

To,

Manager – Listing Compliances
National Stock Exchange Of India Ltd.

Exchange Plaza

Bandra Kurla Complex

Bandra (E), Mumbai-400051

Stock Code: PASUPTAC

Dear Sir/Madam,

Sub: Submission of Published Un-audited Financial Results for the period ended 30.09.2022

Please find enclosed herewith copies of newspaper clippings of The Pioneer (English & Hindi) dated 13th November, 2022 in respect of publication of Extract of Un-audited Financial Results for the quarter & half year ended 30th September, 2022 in compliance with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

You are requested to take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Pasupati Acrylon Limited

Bharat Kapoor Company Secretary & Compliance Officer

Membership No. A54267

Encl: as above

PASUPATI ACRYLON LIMITED

CORPORATE OFFICE: M-14, CONNAUGHT CIRCUS, MIDDLE CIRCLE, NEW DELHI – 110001 (INDIA)
Tel: EPABX - 91-11-47627400; Email: palsecretarial@gmail.com; Website: www.pasupatiacrylon.com

REGD. OFFICE & WORKS: KASHIPUR ROAD, THAKURDWARA, DIST. MORADABAD (U.P.) - 244601

Email: works@pasupatiacrylon.com; CIN: L50102UP1982PLC015532



No need to change inflation target of 2-6%, says RBI Guv

'Oct print to be lower than 7%'

PTI NEW DELHI

 R^{BI} Governor Shaktikanta Das on Saturday said there was no need to change the inflation target despite the central bank's failure to keep it below the 6 per cent upper tolerance level for 9 consecutive months while exuding confidence that the October print will be less than 7 per cent.

Inflation has been trending above the RBI's upper tolerance level of 6 per cent since January

The Reserve Bank of India (RBI) Act mandates that in the case of the inflation target not being met for three consecutive quarters, the central bank has to submit a report to the government explaining the reasons and detail the remedial actions



it will be taking to check the

Earlier this month, a special meeting of the Monetary Policy Committee (MPC) was held to finalise the report explaining the reasons for missing the inflation target for three quarters.

This was the first time since the onset of the Monetary Policy Framework which came into effect in 2016 that the RBI explained its actions in a report

to the government. Speaking at the HT Leadership Summit on Saturday, Das said there is no need to change the goal post for inflation targeting as higher than 6 per cent inflation would

As per the mandate given to the Reserve Bank by the Union Government, the central bank is required to ensure that retail inflation remains at 4 per cent with a margin of 2 per cent on either side.

India likely to remain fastest growing major economy: Shaktikanta

PTI ■ NEW DELHI

Reserve Bank Governor Shaktikanta Das on Saturday exuded confidence that India will continue to be the fastest growing major economy with a likely growth rate of 7 per cent in 2022-23 on the back of strong macroeconomic fundamentals and financial sector stability.

Speaking at the HT Leadership Summit 2022, Das emphasised that the country's economy remains resilient, supported by the banking and non-banking sectors.

Das said the entire world has withstood multiple shocks. "I call it triple shocks of Covid-19 pandemic, then the war in Ukraine, and now the financial market turmoil."

The Governor said the financial market turmoil is mainly emanating from the synchronised monetary policy

tightening across the world by central banks, especially those in advanced countries, led by the US Fed, and the spillovers are being felt by the emerging market economies, including India.

He further said in this kind of successive turmoils, European Union is facing a recession situation, but there are possibilities that it will avoid that. The US is holding stable, but there are other countries where the growth has slowed down.

"So far as India is concerned, economy, overall macroeconomic fundamentals the financial sector stability, all these aspects remain resilient. The banking sector that is the financial sector is stable because of all the parameters with regard to banking or the non-banking lenders or the other major financial sector

India-US trade may reach \$500-600 bn by 2030: Goyal

decides its strategy on its own

terms...If you want binding

commitments (from India) on

different subjects, tell me what

I am getting in return. It has to

be good for my people and my

country. What you give me in

return will determine whether

I will join the trade pillar. You

negotiate and if we see some

advantage, then we will join.

are continuously improving

and strengthening and today

we have a bilateral trade of

about USD 175 billion (exports

and imports of goods and ser-

vices). I believe that in the com-

ing 7-8 years, it will be USD

"India and the US relations

ommerce and Industry ✓Minister Piyush Goyal on Saturday exuded confidence that the India-US bilateral trade in goods and services will reach USD 500-600 billion by 2030 as their relation continues to strengthen.

The trade between the two countries stands at about USD 175 billion at present.

On whether India will join the trade pillar of 14-member Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF), Goyal said it would depend on what India will get in return.

While 13 member countries have joined all four subjects - trade, supply chains, clean economy and fair economy— under IPEF, India has opted out of the trade pillar as of now. It has joined the other three subjects.

"With regard to joining the

500-600 billion by 2030, when our exports in goods and services will be USD 2 trillion each," Goyal said. He was speaking at the

Hindustan Times Leadership Summit 2022.

On a free trade agreement with the US, the minister said America is not looking for a new trade pact with any country. The US is looking at India as its friend and a trusted partner, he added.

The IPEF was launched jointly by the US and other partner countries of the Indo-Pacific region on May 23 in Tokyo. The 14 IPEF partners represent 40 per cent of the global GDP and 28 per cent of global goods and services trade.

The members include the US, Australia, Brunei Darussalam, Fiji, India, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, New Zealand, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam.

RITES Sept qtr PAT drops 20% to ₹140 cr

RITES Ltd, a public sector transport consultancy and engineering firm, has reported 19.6 per cent decline in consolidated profit after tax (PAT) at ₹140.20 crore for September quarter 2022-23.

The company had logged a PAT of ₹174.49 crore in the year-ago period, RITES said in a BSE filing on Friday.

Income dropped to ₹684.30 crore from ₹788.85 crore in the year-ago period.

'The trend of sequential growth as also seen vis-a-vis H1 (April-September) of the previous year continues despite a dip in the export stream of rev-

onward on website http://www.uktenders.gov.in

Improvement and painting work

of Tawaghat - Thanidhar motor

road in assembly Dharchula of

District Pithoragarh (Km 1.00 to

Total Income from operations Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and

Net Profit for the period before tax (after Exceptiona

Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)

Total comprehensive income for the period (Comprising

Profit for the period (after tax) and other comprehensive

Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.10/-)

Other Equity (excluding Revaluation Reserve)
Earnings Per Share (Rs.10/- each)

or Extraordinary items)

income (after tax)

Place: New Delhi Date: 12th November, 2022

and/or Extraordinary items)

Km 5.00) under State sector



"The results reiterate our core strength and the USP (unique selling point) of having a diversified business portfolio," Chairman and Managing Director Rahul Mithal said.

RITES is a miniratna public sector enterprise and a leading player in the transport consultancy and engineering sector in the country.

Office of the Superintending Engine

E-Tender Notice

through E-Tendering (Two Bid System) in anticipation of Sanction on behalf of Hon'ble Governor of

Uttarakhand for following works. All other information will be available from date 22-11-2022 at 5.00 Pm

PASUPATI ACRYLON LIMITED

CIN: L50102UP1982PLC015532

Regd. Office: Kashipur Road, Thakurdwara, Distt. Moradabad (U.P) Corp. Office: M.14, Connaught Circus (Middle Circle), New Delhi-110 001

E-mail: delhi@pasupatiacrylon.com; Website: www.pasupatiacrylon.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30th September, 2022

5.77

5.77

4.32

4.35 89.14

0.48

NOTE: The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Company's Website (www.pasupatiacrylon.com) and BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock exchange of India Limited.

30.09.2022 30.06.2022 30.09.2021 Reviewed Reviewed Reviewed

252.46

14.69

14.69

10.93

89.14

Quarter Ended

178.09

18.45

18.45

13.78

89.14

1.55

Cost of

(in Rs.)

5000.00

The Superintending Engineer, 3rd Circle, Public Works Department Pithoragarh invites tende

3rd Circle, Public Works Department, Pithoragarh E-Mail: sepwdpth@rediffmail.com

Earnest

Money of Tender (in Lac) (day)

Validity

Period of

(months)

IREDA Sept qtr profit rises 67% to ₹184 crore

PTI ■ NEW DELHI

posted 67 per cent jump in net profit at ₹184.30 crore for September quarter 2022-23, mainly due to higher revenues.

In the year-ago period, the

Gross income rose to ₹791.56 crore from ₹682.94 crore. IREDA's Net Non-Performing Assets (bad loans) were reduced to 2.72 per cent in the quarter under review from 4.87 per cent in the same period a year ago.

Contractor's

Category of Registration

Category 'B' and

Above for Road

works in any

of India/

Govt. undertaking

ear Ende

31.03.202

784.2

61.83

61.83

89.14

190.38

30.09.2022 30.09.2021

301.86

40.92

40.92

30.42

89.14

3.41

Nine Month Ended Year Ende

for Pasupati Acrylon Ltd

Managing Directo

460.87

20.46

20.46

15.25

89.14

online survey of 10,00,000 employees working in top 50 IT/BPM companies operating

years, IT companies had hired massively to address the surge in demand driven by the wave of digital transformation across the globe, it noted.



The study further revealed that the level of optimism in hiring intent was found higher among the respondents of

found that Bengaluru remained

ings, foreign MNCs accounted accounted for 18 per cent.

Aurobindo Pharma Q2 net drops 41 pc to ₹409 crore

Aurobindo Pharma on Saturday reported a 41 per cent decline in its consolidated net profit at ₹409 crore for the second quarter ended September 30, 2022.

The Hyderabad-based drug firm had posted a net profit of ₹697 crore in the July-September period of last fiscal. Revenue from operations also declined to ₹5,739 crore in the September quarter as against ₹5,942 crore in the year-ago period.

Aurobindo Pharma Vice-Chairman and Managing Director K Nithyananda Reddy said the company's second quarter performance was subdued, mainly due to macroenvironment factors and higher competitive intensity for some products in the US.

"Ĥowever, we are confident that our robust pipeline of new products will provide impetus to the future growth trajectory," he added. Reddy noted that company's continued focus on biosimilars, R&D, innovation and increasing manufacturing capacity will enhance its product offerings in various markets.

BUSINESS BRIEF

INOX GREEN ENERGY TO BECOME DEBT-FREE FIRM IN '23 Inox Green Energy Services Limited, one of the major wind power operation and maintenance service providers within India, will be

debt free going forward. The company has ₹900 crore total debt as on June 30, 2022. Company's net debt after adjusting cash and cash equivalent of ₹100 crore as on June 30, 2022 comes to ₹800 crore. Around ₹300 crore will be realized by sell of SPV "Nani Virani Wind Energy Private Limited", which would be utilize towards repayment / prepayment of debt. Company plans to utilize net proceed from fresh issue towards repayment and/or pre-payment, in full or part, of certain borrowings availed by our Company including redemption of Secured NCDs in full aggregating up to ₹370 crore.

The balance total debt amountsto ₹130 Crore which company plans to repay through internal accrual which it expects to realize as a result of high EBIDTA margin in the range of 47-54% during the fiscal 2020, 2021, 2022 and also the fact that reduction in debt will curtail interest cost thereby assisting in enhancing internal accruals

NTPC'S PERFORMANCE, PROGRESS COMMENDABLE: MIN

New Delhi: NTPC's performance, work culture and

progress has been commendable. We have not let there be any power crisis even in trying times, said Shri R K Singh Hon'ble Union Minister (Power, New & Renewable

its 48th Raising Day function

Energy) congratulating NTPC on

Singh was speaking on the occasion of NTPC's Raising Day addressing the gathering including the senior management of NTPC at Siri Fort, New Delhi and other dignitaries along with the employees and their family members. In his address, Singh emphasised that economic growth cannot sustain without energy and stated that demand for energy is growing at a rapid pace and we need to be at par with the pace of growth. Singh also stressed on the importance of critical decision making, attracting bright and young minds and encouraging them to take risk and think out of the box. While addressing the gathering consisting of NTPCians from across the country, Shri Gurdeep Singh, CMD, NTPC acknowledged the efforts of every NTPCian and said, "We started our journey in 1975. In these 47 years we have accomplished a successful journey. My thanks to everyone who has contributed to our growth directly or indirectly.



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश (लोक स्वास्थ्य एवं परिसर कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन) एन.एच.एम. भवन लिंक रोड नं. 3, पत्रकार कॉलोनी

> भोपाल (462003) ::- विज्ञापन -::

विज्ञा.क्र./रा.स्वा.मि./मा संसा./सेल-1/2022/7838

भोपाल, दिनांक : 09.11.2022

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. के अंतर्गत पर संविदा उप यंत्री (सिविल) के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता हैं यह अनुबंध 31 मार्च 2023 तक के लिये होगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्ययोजना में स्वीकृत अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा :-

अनिवार्य श्रैश्लिणिक योग्यता

क्र.	पदनाम	रिक्त पद	मासिक मानदेय	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	आयु सीमा
1	संविदा उप यंत्री (सिविल)	55	30,000 रूपये प्रतिमाह	 सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा)/सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक अथवा समकक्ष सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा)/सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक अथवा AMIE 	21-43 वर्ष अधिकतम आयु सीमा में (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग, निशक्त जन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट) (01.01.2023 की स्थिति में)

आवेदन सेम्स लिमिटेड के वेब पोर्टल www.sams.co.in के माध्यम से किया जा सकता है, आवेदन के लिए लिंक दिनांक 14.11.2022 से उपलब्ध की जायेगी। ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि 09.12.2022 है। ऑफ लाईन आवेदन किसी भी स्थिति में मान्य/स्वीकार नहीं किये जावेगें।

पट देत आरथण निम्नानमार होगा :

पद का नाम	संविदा रिक्त पदों की संख्या	पदों की	110	रक्षित '%)	कमञ	क रूप तोर से (10%)		सूचित जाति %)	अनुसृ जाति (100000	पिछडा 27%)	10000	गंजन	मध्यप्रदेश की मूल अभ्यार्थियों हेतु आ की संख्या (6%)	
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	(বৃচ্ছি আধিন एवं कम বৃচ্ছি) 1.5%	कम सुनने वाले) 1.5%	(लोको मीटरिडसेबिलिटी सम्मिलित है जैसे सेरेब्रल पाल्सी कुच्छ रोग मुक्त बौनापन एसिड अटेक पीड़ित मस्कुलर डिस्ट्राफी) 1.5%	(ऑटिज्म, बोद्विक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी ओर मानसिब बीमारी ओर बहुविलांगता)	
संविदा उप यंत्री (सिविल)	55	11	05	03	02	07	4	5	3	10	5	S#S	3	-	-	

- निर्धारित प्रारूप में नहीं किये गए अथवा अपूर्ण आवेदन स्वयमेंव निरस्त माने जायेंगे।
- मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये स्वीकृत निरस्त करने अथवा

मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

IT, BPM firms to see increase in hiring intent in next six months: Survey

With IT and business process management (BPM) sectors witnessing a slump in hiring in September due to margin pressures, a study has revealed that 51 per cent respondents believe that there would be an increase in hiring intent in the next six

However, around one-third (34 per cent) respondents said there is going to be a decline in the hiring intent, while 15 per cent believe that it would be business as usual, according to the CIEL HR study.

The study is based on an

subsided, the companies are ʻrightsizing' again, it said.



smaller companies. On the other hand, the

majority of respondents from mid and large sized companies seemed to be more pessimistic about the hiring outlook. On the job front, the study

the 'hottest destination for IT and BPM talent', with 28 per cent of job postings for this region, followed by Delhi (14 per cent), Hyderabad (13 per cent) and Pune (12 per cent). Out of the total job post-

for around 66 per cent of the jobs while Indian MNCs

Engagement of CMP/GDMO/Specialist over

Applications are invited from eligible candidates for Engagement of Contract Medical Practitioner (CMP) at Northern Railway, Divisional Hospital, Delhi Division. Detailed advertisement with VACANCY STATUS, terms & conditions, format of application form is available on Northern Railway website https://nr.indianrailways.gov.in Delhi Division.

DPO/A/DLI/NR/22409/P-9(Gaz) Date: 12.11.2022 **Division Personnel Officer/DLI** New Delhi

3022/2022 **SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE**

T &T InfrazonePvt. Ltd. **Public Notice**

State Environmental Impac Assessment Authority (SEIAA)-U. P has accorded the Environmental clearance toExpansion of Group Housing Project at Plot No. 3/SP03, Sector-3, Siddharth Vihar, Ghaziabad, U.P. vide Environmental Clearance Identification EC22B038UP196743 dated

WWW.Parivesh.nic.in .

T and T Infra Developers Pvt. Ltd.

Assessment 07/07/2022.

clearance Copy of available on Parivesh Portal WWW.Parivesh.nic.in .

MEYER APPAREL LIMITED

CIN: L18101HR1993PLC032010 Regd. Office: 3 & 4, Mustil No. 19, Killa No.-5, opposite Tata Consultancy N.H.-8, Village Narsingh Pur, Gurugram-122004 (Haryana) India TEL: 91-9953696941, EMAIL: info@meverapparel.com, WEBSITE: www.meverappa EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30™ SEPTEMBER, 2022

SI. No.	Particulars	September 30, 2022 Un-audited	September 30, 2021 Un-audited	June 30, 2022 Un-audited	September 30, 2022 Un-audited	September 30, 2021 Un-audited	March 31, 2022 Audited
1	Total income from operations	94.38	228.05	128.84	223.22	271.59	503.56
2	Net Profit / (Loss) for the period	(43.80)	5.21	(12.52)	(56.32)	(15.21)	(106.88)
	(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)						
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax	(43.80)	5.21	(12.52)	(56.32)	(15.21)	(106.88)
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)						
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax	(43.80)	5.21	(12.52)	(56.32)	(15.21)	(106.88)
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)						
5	Total Comprehensive Income for the period	(44.21)	5.05	(12.37)	(56.58)	(14.95)	(106.35)
	[Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and						
	other Comprehensive income (after Tax)]						
6	Paid up Equity share capital (Face Value of Rs. 3/- each)	2,426.67	2,426.67	2,426.67	2,426.67	2,426.67	2,426.67
7	Other Equity						(5,246.45)
8	Earnings Per Share (of Re. 3/- each)						
	Basic	(0.05)	0.01	(0.02)	(0.07)	(0.02)	(0.13)
	Diluted	(0.05)	0.01	(0.02)	(0.07)	(0.02)	(0.13)
NO.	TES:				-		

These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India. The above financia results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2022 has been reviewed by the Audit committee and approved by the Boar of Directors at their meeting held on 12" November, 2022 The above is an extract of the detailed format of un-audited quarterly and half-yearly financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full format of the un-audited quarterly and half-year

33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulations, 2010. The Fundamental and an abusing against, and Financial Result is available on the Stock Exchange's website : www.bseindia.com and also on the Company's website, namely: www.meyerapparel.com.

For and on behalf of the Boar

The Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA) on Saturday

profit after tax was ₹110.27 crore, according to a statement from Ministry of New & Renewable Energy.

During the pandemic

Now that the demand has

NORTHERN RAILWAY

and above present strength for NRDH/DLI. No. NR-DLIOPERS (GENL)/466/2020-O/o

Environment Clearance

18/08/2022. Copy of clearance available on Parivesh Portal

M/sT &T InfrazonePvt. Ltd

Public Notice Environment Clearance

State Environmental Impact (SEIAA)-U. P has accorded the Environmental clearance toGroup Housing Project at Plot No.-3/SP05, Sector-3, Siddharth Vihar, Ghaziabad vide Environmental Clearance Identification No. EC22B038UP192605 dated

M/s T and T Infra Developers Pvt. Ltd.

IMPORTANT NOTICE

Dear Members, As you are aware Hon'ble High Court, Delhi has temporarily

prohibited the business of Society from 22.03.2022 and in pursuance with the order neither any deposit is being accepted by the Society nor any new member is being made by the Society since 22.03.2022. But some mischievous persons have issued a circular in social media, misusing Sahara India Pariwar's letter head with forged signature of Saharasri by using the name of Society for adding more and more members in the Society, mentioning more and more benefits, which has no relation with the Society and Saharasri as he is not having any position in Society and is being circulated for committing fraud. A complaint has been filed in the National Cyber Crime Branch in this regard.

Society, the Society will inform by its legal resources to accept new deposits from its esteemed members. (Managing Director)

In the same context it is hereby informed that as soon as the

Hon'ble High Court, Delhi lifts the prohibition from the

G-19131/22

	पदा का संख्या	(2)	(27%)		कमजार स वर्ग (10%)		(20%)		जात (१६%)		91 (21%)		पदों की संख्या (6%)			
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	(दृष्टि बाधित एवं कम दृष्टि) 1.5%	कम सुनने वाले) 1.5%	(लोको मीटरिडसेबिलिटी सम्मिलित है जैसे सेरेब्रल पाल्सी कुष्ठ रोग मुक्त बौनापन एसिड अटेक पीड़ित मस्कुलर डिस्ट्राफी) 1.5%	(ऑटिज्म, बोद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी ओर मानसिक बीमारी ओर बहुविलांगता)	
संविदा उप यंत्री (सिविल)	55	11	05	03	02	07	4	5	3	10	5	i#0:	3	;=	-	

दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिजिक (Horizonatal) के आधार पर 06 प्रतिशत का प्रस्ताव तैयार किया गया है। नि:शक्तजनों के लिए कुल रिक्तियों में से 06 प्रतिशत पद नि:शक्तजन के लिए आरक्षित है, जिस श्रेणी का नि:शक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन नियक्तियों में सम्मिलित है।

अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा।

मध्यप्रदेश

Sahara Credit Co-operative Society Limited



खेरसॉन में हैं यूक्रनी विशेष सैन्य इकाइयां : राष्ट्रपति जेलेंस्की

युक्रेन के राष्ट्रपति ने शुक्रवार को कहा कि युद्ध की शुरुआत में ही रूसी सेना द्वारा कब्जा जमा ली गई बड़ी प्रांतीय राजधानी खेरसॉन में विशेष सैन्य इकाइयां दाखिल हो चुकी हैं। खेरसॉन से रूस (रूसी सेना) के पीछे हटने पर शहर में लोगों ने ख़ुशियां मनाई। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस शहर से अपने सैनिकों को वापस बुला लेने की प्रक्रिया पूरी होने के रूस के ऐलान के कुछ घंटों बाद एक वीडियो संबोधन में, राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा, अभी



देर में हम शहर प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन विशेष इकाइयां पहले से ही शहर में हैं। रूस ने इस बडे शहर में अपनी मजबूत पकड़ छोड़ दी। जब 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस ने कहा कि उसके सभी सैनिक यूक्रेन के आक्रमण किया था, तो खेरसॉन सबसे खेरसॉन क्षेत्र को विभाजित करने

हमारे रक्षक शहर की बढ रहे हैं। थोडी पहले उसके कब्जे में आने वाले स्थानों में एक था। रूसी सैनिकों की वापसी ऐसे स्थानों पर युक्रेनी सेना के आगे बढने के लिए अनुकुल साबित हो सकती है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने

वाली नदी के पश्चिमी तट से सुबह 5 बजे तक परी तरह लौट गए। उन्होंने जिस क्षेत्र को छोड़ा, उसमें खेरसॉन शहर शामिल है जो एकमात्र प्रांतीय राजधानी थी जिसे रूस ने यूक्रेन पर अपने लगभग नौ महीने के आक्रमण के दौरान कब्जा कर लिया था। सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरों में खेरसॉन की सड़कों पर लोगों को ख़ुशी मनाते हुए देखा गया है। मार्च की शुरुआत में इस शहर पर कब्जा कर लिए जाने के बाद पहली बार एक केंद्रीय खेरसॉन चौक पर एक स्मारक के उप्रर एक युक्रेनी झंडा

चीन ने कक्षा में अपने रयेस स्टेशन के लिए कार्गी अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया

बीजिंग। चीन ने अपने तियांगोंग

अंतरिक्ष स्टेशन को आपूर्ति भेजने के लिए शनिवार को कार्गो अंतरिक्ष यान तियानज् का सफल प्रक्षेपण किया। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण इस साल तक पुरा होने की उम्मीद है। अंतरिक्ष में मानव मिशन से संबंधित चीन की एजेंसी सीएमएसए ने बताया कि दक्षिणी हैनान प्रांत में वेंचचांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल से तियानजू-5 को लेकर सुबह खाना हुआ लांग मार्च-7 वाई6 रॉकेट सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में पहुंच गया। एजेंसी ने इसे पूरी तरह सफल प्रक्षेपण बताया है। इससे पहले, 31 अक्टूबर को चीन ने अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण को अंतिम चरण में ले जाने के लिए मेंगटियन मॉड्यूल नामक दूसरी प्रयोगशाला की शुरुआत की थी।

बाइडन दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के सम्मेलन में शामिल हुए

भाषा। नोम पेन्ह (कंबोडिया)

राष्ट्रपति जो बाइडन शनिवार को दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के एक सम्मेलन में शामिल हुए और वह इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रतिबद्धता पर जोर देना चाहते हैं जहां चीन अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है।आसियान सम्मेलन में बाइडन की भागीदारी चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ उनकी संभावित बैठक से पहले हो रही है। दोनों नेता सोमवार को जी 20 देशों की बैठक में मिलेंगे। यह बैठक इंडोनेशिया के बाली द्वीप में आयोजित की जाएगी। शनिवार को नोम पेन्ह की यात्रा करते हुए, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि बाइडन के तौर पर और किसी एक राष्ट्र को



दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ (आसियान) नेताओं के साथ चीन द्वारा नौवहन और लंबे समय से गैर-कानूनी तरीके से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मछलियों का अवैध शिकार जैसे मुद्दें उठाएंगे। सुलिवन ने पत्रकारों से कहा कि क्षेत्र में स्थिरता लाने वाली ताकत

बलपूर्वक कार्वाई करने से रोकने में अमेरिका की अहम भूमिका है। चीन का जिक्र करते हुए, सुलिवन ने कहा, मुझे लगता है कि यह देश इस तथ्य को पसंद नहीं कर सकता है, लेकिन वे निश्चित रूप से इसे स्वीकार करते हैं और इसे समझते हैं। बाइडन नोम पेन्ह में क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन के मेजबान कंबोडिया के प्रधानमंत्री हन सेन से मुलाकात की। वह वार्षिक अमेरिका-आसियान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे।

बाइडन म्यांमा के मुद्दे को भी उठाएंगे जहां सेना ने फरवरी 2021 में सत्तारूढ सरकार को उखाड़ फेंका था और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता आंग सान सू ची को गिरफ्तार कर

पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दिसंबर में लौट सकते हैं पाकिस्तान : रिपोर्ट

लाहौर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) प्रमुख नवाज शरीफ आत्म-निर्वासन समाप्त कर अगले आम चुनाव में अपनी पार्टी का नेतृत्व करने के लिए लंदन से पाकिस्तान लौट सकते हैं। मीडिया में शनिवार को आई एक खबर में दावा किया गया है कि वह दिसंबर में स्वदेश वापसी कर सकते हैं। शुक्रवार को मीडिया में आई खबर में कहा गया था कि 72 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री को पीएमएल-एन नीत सरकार द्वारा राजनियक पासपोर्ट दिया गया है। द एक्सप्रेस ट्रब्यून अखबार ने पार्टी सूत्रों के हवाले से कहा कि शरीफ आखिरकार दिसंबर में पाकिस्तान लौटेंगे। हालांकि, सूत्र ने कहा कि इस कदम को सरकार द्वारा समय से पहले चुनाव कराने के संकेत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। यह अफवाहें सच नहीं हैं कि शरीफ चुनाव के करीब आने पर प्रचार के लिए लौटेंगे, क्योंकि उनकी वापसी का किसी भी तरह से मतलब यह नहीं है कि पीएमएल-एन नीत सरकार समय से पहले चुनाव के लिए सहमत हो गई है। उल्लेखनीय है कि पीटीआई के प्रमुख एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अप्रैल में उन्हें पद से हटाए जाने के बाद से

नोबेल पुरस्कर विजेता रामकृष्णन को ब्रिटेन के आईर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया

भारतीय मल के नोबेल परस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकष्णन को ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय ने विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान को लेकर प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। ब्रिटेन में रह रहे 70 वर्षीय आणविक जीवविज्ञानी का नाम उन छह व्यक्तियों में शामिल है, जिनका उल्लेख महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सितंबर में अपना निधन होने से पहले ऐतिहासिक आदेश में किया था। आर्डर ऑफ मेरिट ब्रिटिश महारानी या महाराजा द्वारा दिया जाने वाला एक विशेष सम्मान है। बिकंघम पैलेस ने शुक्रवार शाम को कहा, महाराजा छह व्यक्तियों को आर्डर ऑफ मेरिट प्रदान कर प्रसन्न हैं। इस सिलसिले में नियुक्तियां सशस्त्र बलों, विज्ञान, कला, साहित्य या संस्कृति का प्रचार-प्रसार करने में विशिष्ट योगदान देने को लेकर की गई हैं। बिकंघम पैलेस ने कहा, इन व्यक्तियों का चयन सितंबर की शुरूआत में किया गया था।

अटलांटा में श्री श्री रविशंकर को प्रदान किया गया गांधी पीस पिलग्रिमेज पुरस्कर

वाशिंगटन। भारतीय आध्यात्मिक नेता श्री श्री रविशंकर को महात्मा गांधी एवं डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शांति एवं अहिंसा के संदेशों का प्रसार करने में उनके अथक प्रयासों के लिए अटलांटा में गांधी पीस पिलग्रिमेज पुरस्कार प्रदान किया गया है। श्री श्री रविशंकर को डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर के भतीजे इसाक फारिस और अटलांटा में भारत की महावाणिज्य दत डॉ. स्वाति कुलकर्णी की उपस्थिति में अमेरिका के गांधी फाउंडेशन ने यह पुरस्कार प्रदान किया। प्रशस्ति पत्र में कहा गया है कि दुनिया में जो बदलाव हम देखना चाहते हैं, उसके प्रति विवेक, अंतदृष्टि तथा गांधी-किंग के शांति एवं अहिंसा के उपदेशों से प्रेरित होकर मानवता की सेवा करने को लेकर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। श्री श्री रविशंकर ने अपने संदेश में कहा, कुछ संदेश कालातीत संदेश होते है। इस श्रेणी में मार्टिन लुथर किंग और महात्मा गांधी के संदेश बहुत प्रासंगिक हैं। वे हर मध्याविध चुनाव की मांग कर रहे हैं। पीढ़ी में हर उम्र के लिए बिल्कुल नए हैं।

भारत और आसियान देशों ने आतकंवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया

भाषा। नोम पेन्ह

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड ने शनिवार को यहां 19वें आसियान-भारत सम्मेलन को संबोधित किया, जिसके बाद भारत और आसियान देशों ने आतंकवाद के खिलाफ व्यापक रणनीतिक भागीदारी कायम करने और सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। धनखड कंबोडिया की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं। इस वर्ष आसियान-भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ है और इसे आसियान-भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ (आसियान) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें दक्षिण पूर्वी एशियाई के 10 देश ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम सदस्य हैं।भारत-आसियान ने दोनों पक्षों के बीच संवाद मंच स्थापित करके साइबर सुरक्षा पर सहयोग मजबूत बनाने पर जोर दिया। एक संयुक्त बयान में, उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध, समुद्री संपर्क और सांस्कृतिक संबंधों की सराहना की,



धनखड़ ने कम्बोडिया के प्रधानमंत्री से मिलकर द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की

नोम पेन्ह। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कम्बोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन से शनिवार के मुलाकत करके मानव संसाधन, बारूदी सुरंगो को हटाने और विक्तस परियोजनाओं सहित अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने पर चर्चा की। आसियान-भारत सम्मेलन से इतर दोनों देशों ने संस्कृति, वन्यजीव और स्वास्थ्य के क्षेत्र में चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए धनखड़ ने कहा कि उन्होंने आसियान सम्मेलन के सफल अध्यक्षता के लिए कम्बोडिया के प्रधानमंत्री को बधाई दी। दोनों देशों के बीच जिन चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं उनमें स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में सहयोग, जैवविविधता संरक्षण और सतत वन्यजीव प्रबंधन शामिल है। इसके तहत कम्बोडिया में फिर से बाघो को बसाने की परियोजना भी शामिल है। आईआईटी जोधपुर और कम्बोडिया के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बीच अनुसंधान, विकास और सांस्कृतिक विरासत के डिजिटल दस्तावेजीकरण में तकनीक के उपयोग के क्षेत्र में समझौता हुआ। कम्बोडिया के सिएम रीप स्थित वाट राजा बो पैगोड की पेटिग के संरक्षण और देखमाल (जिसमे उनकी मरम्मत भी शामिल है) के लिए वित्तपोषण संबंधी समझौता भी हुआ। इस साल आसियान-भारत संबंधों के 30 साल पूरे हो गए हैं और 2022 को आसियान-भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।

जो पिछले 30 वर्षों में मजबूत हुए हैं और आसियान-भारत संबंधों के लिए एक ठोस आधार बन गए हैं। सम्मेलन को संबोधित करने से पहले उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ मानव संसाधन, बारूदी सुरंगों को हटाने और विकास परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों समेत द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा बनाने के तौर-तरीकों पर चर्चा की। भारत और आसियान देशों ने संयुक्त बयान में डिजिटल परिवर्तन, डिजिटल व्यापार, डिजिटल कौशल एवं नवाचार में विभिन्न क्षेत्रीय कौशन निर्माण गतिविधियों के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाने की घोषणा की। बयान में कहा गया है, हम आसियान स्मार्ट सिटीज नेटवर्क (एएससीएन) और भारत के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सहयोग बढाने के विकल्प तलाशेंगे, इसके लिए आपस में श्रेष्ठ पद्धतियों एवं क्षमता निर्माण में परस्पर सहयोग करेंगे ताकि ऐसे शहरों के निर्माण में मदद मिले जो तकनीकी दिष्ट से उन्नत हो। धनखड 13 नवंबर को, 17वें पूर्वी एशिया शिखर

सम्मेलन में भाग लेंगे।

ईरान में हालात को लेकर विशेष सत्र आयोजित करेगा संरा मानवाधिकार आयोग

जिनेवा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकर आयोग ईरान में प्रदर्शनक्तरियों के खिलाफ सरकर की क्वर्वाई, पत्रकरों को धमकियां और मानवाधिकर उल्लंघन के अन्य मामलो के मद्देनजर विशेष सत्र आयोजित करने जा रहा है।

टी एंड टी इंफ्रा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड जन – सूचना

ौसर्स टी एंड टी इंफ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड प्रसन्नता पूर्वक सूचित करते हैं नंबर—3 / एसपी05, सेक्टर—3, सिद्धार्थ विहार जिला– गाजियाबाद, यू.पी. को स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश द्वारा एन्वायरमेंट क्लीयरेंस दिया गया था (पत्र संख्या–ईसी EC22B038UP192605 07/07/2022.)

क्लीयरेंस पत्र की प्रतिलिपि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ उपलब्ध हैं और www-parivesh-nic-in पर पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवाय परिवर्तन की वेबसाइट पर भी देखा जास कता है।

टी एंड टी इंफ्रा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना

विसाधारण को सूचना दी जाती है कि निम्नलिखि चुकी हैं पेट्रोल कारें 15 साल, डीजल कारें 10 साल ।।इन व्यू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एम सी डी डाइव में जब्त की गई थी और अभी तक किसी के द्वार भी क्लेम नहीं की गयी है। इन सभी गाडी मालिकों को सचित किया जाता है कि कंपनी के ऑफिस में आ कर ाड़ी की स्क्रैप वैल्यू क्लेम कर लें। अन्यथा ये सभी गाड़ियां अगले तीन दिन में स्क्रैप कर दी जाएंगी।

DL4CAF0844, DL8SAF4503, NOREG65,

DL4CAF0844,	DL8SAF4503,	NOREG65,
UP33L1009,	DL5SQ8047,	DL4SBB6656,
DL8CH9438,	DL8SZ8256,	DL8SQ0692,
DL3CAX1616,	DL4SAY3906,	DL6SV7119,
DL1CAC3225,	DL8SAC4590,	CHSNO-
DL9CN5345,	DL8SW0623,	552200,
DL3CAP7915,	DL1SN8521,	DL8SY0251,
HR26AE8231,	DL8SU6602,	DL4ST8226,
DL3CAL4321,	DBH9373,	DL8SAE0376,
DL7CC5147,	DL3CAG8078,	DL8SN9929,
DL9CJ7748,	DL4CAF1305,	DAK9117,
DL3CAW1079,	DL9CN7338,	DL3SY0432,
DL2CK1737,	DL9CF0971,	DL6SH0786,
DL2CR5402,	DL4CAG5984,	DL8SP2561,
DAB2855,	DL9CK9564,	DL4SX9701,
DL4CF3999,	CH.NO-SB308	DL4SBE1711,
DL4CR7855,	IN1439914,	DL6SF1094,
DL1CL3939,	DL3CAQ6156,	DL8SR9926,
DL8CX4216,	UP16D7015,	DL5SQ1603,
DL5CD2081,	DL10CF0889,	DL3SA2734,
DL2CAD8509,	DL8CX5732,	DL6ST7096,
UP16F3962.	DL6SAC2589.	DL6SX1922,
DL5CF0585,	DL1CN1195,	DL3SAK8476,
DL6CK4584,	DL5CB7309.	DL6ST8030,
DL1CL3328,	DL4CJ0299,	DL8SZ3039,
UP87Q4342,	DL9CAC0420.	DL7SK2475,
KA03EF9450,	HR26H9630,	DL8SL1227,
UTP9282,	PB08AQ9998.	DIS3195,
DL7SR5505,	DL9CR4140,	DL8SP1071,
DL6SR3577.	DL2CAH1722,	DL8SAB7457,
DL6SZ6681,	DL7SAU7328,	DL8SH2690,
DL5SP1952,	DL3SR1289,	DL6SAA1707,
DL5SM5605,	UP70AE5208,	DL4SAQ4458,
DL5ST4975,	DL3SAM2711,	ENGNO-00H
UP14AA6952,	DL3SBH0168,	41M03209,
DL8SAF1458,	DL2SA1700.	UP65S9028,
DL7SAQ6274,	DL2SG1895,	DL8SAH0160,
DL7SN0388.	DL6SP6139.	DL8SG2214,
DL7SS2484,	DL3SF7865,	DDP8642,
RJ1914M9275	DL3SP4442.	DL8SAB7812,
DL5SP1120,	DL9SL3774,	DL8SAF3457,
DL7SV8455,	DL2SK2108,	DL8SU8658,
UP92D8690,	DL7SE9423,	DL6ST1117,
DI REMEEUE	DI QCH5512	DI 857/558

DL7SY6791, DBZ6405.

DL8SN7587, DL1SA6514,

L3SP1620, UP32AD2917, DL8SA2908

DL8SN3031. DL7SR3112. DL8SAF5557.

P78BC8776. DL7SK52471. DL4CQ0048.

(रू. करोड़ों में)

अक्टूबर में मुद्रास्फीति दर के सात प्रतिशत से कम रहने की उम्मीद : दास

भाषा। नई दिल्ली

भारतीय रिजर्व बेंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कीमतों में वृद्धि को एक बड़ी चुनौती बताते हुए शनिवार को उम्मीद जताई कि अक्टूबर में मुद्रास्फीति की दर सात प्रतिशत से कम रहेगी। सितंबर में खदरा मुद्रास्फीति बढकर 7.4 प्रतिशत हो गई जबिक अगस्त में यह सात प्रतिशत पर थी। खाद्य और ऊर्जा उत्पादों की कीमतों में तेजी के कारण इसमें वृद्धि हुई थी। दास ने अक्टूबर माह के लिए मुद्रास्फीति की दर में कमी आने की इस उम्मीद के लिए सरकार और आरबीआई द्वारा पिछले छह-सात महीनों में उठाए गए उपायों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने एचटी लीडरशिप समिट में कहा कि मुद्रास्फीति को दो से छह प्रतिशत के दायरे में रखने के लक्ष्य में बदलाव की आवश्यकता नहीं है क्योंकि छह प्रतिशत से अधिक की महंगाई दर आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करेगी। सरकार ने आरबीआई गवर्नर की

भारत के सबसे तेजी से बढने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बने रहने की संभावनाः आरबीआई गवनेर

के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शनिवार को भरोसा जताया कि भारत वित्त वर्ष २०२२-२३ मे सात प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। दास ने एचटी लीडरशिप समिट 2022 में इस बात पर जोर दिया कि बैकिंग और गैर-बैकिंग क्षेत्रों के समर्थन से देश की यूक्रेन में युद्ध और अब वित्तीय बाजार में से केंद्रीय बैकों द्वारा दुनिया भर में सख्त रूप से विकसित देशों के करण और इनके उन्होंने आगे कहा कि इस तरह वी लगातार अनुमान है कि भारत वी अर्थव्यवस्था करीब

नर्ड दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैक (आखीआई)



अर्थव्यवस्था नचीली बनी हुई है। पूरी दुनिया उथल-पुथल में यूरोपीय संघ आर्थिक मंदी की ने कई झटके झेले हैं। मैंने इन्हें तीन झटके स्थिति का सामना कर रहा है, लेकिन कहता हं। पहला क्वेविड-१९ महामारी, फिर संभावनाएं है कि वह इससे बच जाएगा। अमेरिका में स्थिति स्थिर है लेकिन ऐसे उथल-पुथलौ आरबीआई गवर्नर ने कहा अन्य देश है जहां आर्थिक वृद्धि धीमी हो गई कि वित्तीय बाजार में उथल-पुथल मुख्य रूप है। दास ने कहा, जहां तक भारत का संबंध है.....हमारे समग्र वृहद-आर्थिक बुनियादी मौद्रिक नीति से उत्पन्न हो रही है। विशेष पहलू मजबूत बने हुए है। बैकिंग या गैर-बैकिंग क्षेत्र उधारदाताओं के संबंध में सभी अप्रत्यक्ष नुकसान भारत समेत उभरती मापदंडों के करण स्थिर है। मौजुदा संदर्भ मे अर्थव्यवस्थाओं को झेलना पड़ रहा है। वृद्धि के आंकड़े अच्छे दिख रहे हैं। हमारा

सात प्रतिशत की दर से बढेगी। आईएमएफ ने अनुमान जताया है कि चालू वित्त वर्ष मे भारत वी आर्थिक वृद्धि दर लगभग ६.८ प्रतिशत रहेगी। यह आंकड़े भारत को दनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में रखते है। हालांकि, आखीआई प्रमुख ने कहा कि मुद्रास्फीति के मामले में भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है। ल्लेखनीय है कि सितंबर मे खुदरा मुद्रास्पीति बढ़कर ७.४ प्रतिशत हो गई जबकि अगस्त में यह सात प्रतिशत पर थी। खाद्य और ऊर्जा उत्पादो की कीमतो मे तेजी के

छह प्रतिशत के दायरे में रखने की जिम्मेदारी दी हुई है। आरबीआई गवर्नर ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कहा कि वैश्विक उथल-पृथल के बीच भारत के समग्र वृहद-आर्थिक बुनियादी पहलू मजबूत बने हुए हैं और आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं अच्छी दिख रही हैं। उन्होंने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर के लिए महंगाई दर के आंकडे सात प्रतिशत से कम होंगे। मुद्रास्फीति चिंता का विषय है जिससे हम अब प्रभावी ढंग से निपट रहे हैं। अक्टूबर महीने के मुद्रास्फीति आंकडे सोमवार को जारी होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले छह या सात महीनों में आरबीआई और सरकार दोनों ने ही मुद्रास्फीति को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। दास ने कहा कि आरबीआई ने अपनी ओर से ब्याज दरों में वृद्धि की है तथा सरकार ने आपूर्ति पक्ष से जुड़े कई कदम उठाए हैं।

अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति

प्रधानमंत्री ने ओएनजीसी के यू-फील्ड की तटवर्ती सुविधाओं का किया उद्घाटन

नर्ड दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आंध्र प्रदेश के बी आर अंबेडकर कोनासीमा जिले के ओदलारेवु में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) की यू-फील्ड तटवर्ती सुविधाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस कंपनी ओएनजीसी ने एक बयान में कहा कि यह परियोजना विशाखापत्तनम में 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न अन्य विकास परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास के साथ राष्ट्र को समर्पित की गई है। हालांकि ओएनजीसी ने यह नहीं बताया कि इस क्षेत्र से उत्पादन कब शुरू किया जाएगा। यू-फील्ड बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन ब्लॉक केजी-डीडब्ल्यूएन-9812 में स्थित है। उपयोगकर्ताओं को भेजने से पहले क्षेत्र से प्राकृतिक गैस को समृद्र के नीचे पाइपलाइनों के जरिए तटवर्ती

रुसी खाद्यान्न एवं उर्वरक निर्यात की छूट जारी रखने के लिए प्रयासरतः संयुक्त राष्ट्र

संयक्त राष्ट ने यक्रेन के खिलाफ

सैन्य कार्वाई के बाद कई पाबंदियों

भाषा। जेनेवा

का सामना कर रहे रूस से अनाज एवं उर्वरक के वैश्विक निर्यात की दिशा में हुई प्रगति की जानकारी रूस के एक प्रतिनिधिमंडल को दी संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता कार्यक्रम के प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ और व्यापार प्रमुख रेबेका ग्रिनस्पैन ने रूसी प्रतिनिधिमंडल को शुक्रवार को अनाज एवं उर्वरक निर्यात से जुड़े पहलुओं के बारे में सूचित किया। इसमें यूरोपीय संघ के बंदरगाहों तक पहुंच हासिल करने और युरोपीय देशों को रूसी अनाज एवं उर्वरक की आपूर्ति से जुड़े मुद्दे शामिल थे। यूक्रेन पर फरवरी में सैन्य कार्वाई शुरू करने वाले रूस के खिलाफ अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। उसके बाद गत 22 जुलाई को रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों को खाद्यान्न निर्यात की छूट देने संबंधी समझौते हुए थे। लेकिन उन समझौतों की अवधि 19 नवंबर को खत्म होने वाली है।

out of the total day that the at out to at
कमल शर्मा पुत्र स्वर्गीय नाथू राम शर्मा ने गांव
जियाउद्दीनपुर, सड़क सं. ८, पश्चिम ज्योति नगर,
इलाका, शाहदरा, दिल्ली में स्थित संपूर्ण फ्री-होल्ड
संपत्ति सं. एफ-62, (पुराना नंबर एफडी-7), एरिया
परिमाप 50.00 वर्ग गज, खसरा नंबर 1/164, पंजीकृत वसीयत दिनांक 20.07.2013 के माध्यम से मालिक हैं
वसायत दिनाक 20.07.2013 के मध्यम से मालिक ह सभी व्यक्यों को एतदद्वारा सूचित किया जाता हैं कि श्री
योगेंद्र शर्मा उपरोक्त संपत्ति को पंजीकृत बिक्री विलेख
के माध्यम से फुलर्टन इंडिया होन फाइनेंस कंपनी के
साथ, श्री कमल शर्मा पुत्र स्वर्गीय नाथू राम शर्मा से
खरीद रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को उक्त संपत्ति में कोई
प्रभार / हित / अधिकार है या किसी भी प्रकार का विवाद
है, तो कृपया अधोहस्ताक्षरी को नीचे दिए गए पते पर
लिखित रुप में वर्तमान से 07 दिनों के भीतर सचित करें।
श्रीमती प्रसून लता, अधिवक्ता,
एस्जी एसौसिएट्स (लॉ फर्म)
यूनिट नंबर 7, बेसमेंट, प्लॉट नंबर सी 78, सेक्टर 2, नोएडा, यूपी 201301 ईमेल: sgassociatespl@gmail.com
र्समेलः saassociatesn@amail.com
फोन : 7011172764, 8130200837
टी एंड टी इंफ्रा जोन प्राइवेट
टी एंड टी इंफ्रा जोन प्राइवेट लिमिटेड
लिमिटेड
लिमिटेड जन — सूचना मैसर्स टी एंड टी इंफ्रा जोन प्राइवेट लिमिटेड प्रसन्नता पूर्वक सूचित करते हैं ग्रुप हाउसिंग
लिमिटेड जन — सूचना मैसर्स टी एंड टी इंफ्रा जोन प्राइवेट लिमिटेड प्रसन्नता पूर्वक सूचित करते हैं ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, प्लॉट नं-3/एसपी03, सेक्टर-3,
लिमिटेड जन — सूचना मैसर्स टी एंड टी इंफ्रा जोन प्राइवेट लिमिटेड प्रसन्नता पूर्वक सूबित करते हैं ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, प्लॉट नं-3/एसपी03, सेक्टर-3, सिद्धार्थ विहार जिला— गाजियाबाद, यू.पी. को
लिमिटेड जन — सूचना मैसर्स टी एंड टी इंफ्रा जोन प्राइवेट लिमिटेड प्रसन्नता पूर्वक सूचित करते हैं ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, प्लॉट नं-3/एसपी03, सेक्टर-3,
लिमिटेड जन — सूचना मैसर्स टी एंड टी इंफ्रा जोन प्राइवेट लिमिटेड प्रसन्नता पूर्वक सूबित करते हैं ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, प्लॉट नं-3/एसपी03, सेक्टर-3, सिद्धार्थ विहार जिला— गाजियाबाद, यू.पी. को
लिमिटेड जन — सूचना भैसर्स टी एंड टी इंफ्रा जोन प्राइवेट लिमिटेड प्रसन्तता पूर्वक सूचित करते हैं युप हाउसिंग प्रोजेक्ट, प्लॉट नं-3/एसपी03, सेक्टर-3, सिद्धार्थ विहार जिला– गाजियाबाद, यूपी. को स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ऑरिटी,
लिमिटेड जन — सूचना गैसर्स टी एंड टी इंफ्रा जोन प्राइवेट लिमिटेड प्रसन्तता पूर्वक सूचित करते हैं ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, प्लॉट नं-3/एसपी03, सेक्टर-3, सिद्धार्थ विहार जिला- गाजियाबाद, यू.पी. को स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ऑरिटी, उत्तर प्रदेश द्वारा एनवायरमेंट क्लीयरेंस दिया

क्लीयरेंस पत्र की प्रतिलिपि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ उपलब्ध हैं और www-parivesh-nic-in पर पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।

टी एंड टी इंफ्रा ज़ोन प्राइवेट लिमिटेड

फर्जी खातों की भरमार के बाद ट्विटर ब्लू सेवा बाधित भाषा। सैन फ्रांसिस्को

सोशल मीडिया मंच ट्विटर की फिर से शुरू की गई प्रीमियम सेवा ट्वटर ब्लू इस मंच पर फर्जी खातों की एक लहर आने के बीच शुक्रवार को बुरी तरह बाधित रही। हालांकि इन फर्जी खातों को खुद ट्विटर ने मंजूरी दी थी। ट्विटर हर महीने आठ डॉलर का भुगतान करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को सत्यापन के बाद ट्विटर ब्लू का चिहन देने की सेवा दे रहा है। सोशल मीडिया कंपनी पहले सरकारी संस्थाओं, मशहूर हस्तियों और मंच द्वारा सत्यापित पत्रकारों को ही ब्लू बैज प्रदान करती थी। इसे मंच पर नकली या फर्जी खातों को रोकने के लिए शुरू किया था। हालांकि एलन मस्क के ट्विटर की कमान संभालने के बाद अब कोई भी उपयोगकर्ता ब्लू बैज प्राप्त कर सकता है और इसके लिए उसे प्रति माह आठ डॉलर का भुगतान करना होगा।

निवेशकों के लिए एक आकर्षक प्रवेश बिंदु के रूप में उभर रहा गिफ्ट-आईएफएससी : चेयरमैन

भाषा। वाशिंगटन

गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) के चेयरमैन इंजेती श्रीनिवास ने कहा है कि भारत का यह विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) विदेशी वित्तीय और संस्थागत कंपनियों के निवेशकों के लिए एक आकर्षक प्रवेश बिंदु के रूप में उभर रहा है। अमेरिका के दौरे पर आए श्रीनिवास ने कहा कि अगले पांच वर्षों में यह क्षेत्र देश के शीर्ष दस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों में से एक होगा। श्रीनिवास अमेरिकी और वैश्विक निवेशकों के साथ बैठकों और अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इस दौरान



किया गया। अहमदाबाद से सटी गिफ्ट सिटी स्थित आईएफएससी चेयरमैन श्रीनिवास ने इस पांच दिवसीय यात्रा के समापन पर कहा, ैमुझे लगता है कि अगले पांच वर्षों में आईएफएससी स्पष्ट रूप से खुद को भारत के लिए एक बहुत ही आकर्षक गोलमेज चर्चाओं के लिए आए वरिष्ठ प्रवेश बिंदु के रूप में स्थापित करेगा। उन्होंने कहा यह गैर-भारतीय व्यवसायों के लिए भी एक बैंकिंग और शैक्षणिक संस्थानों के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में

शुरू कर देगा। अगले पांच वर्षों में यह मात्रा के लिहाज से निस्संदेह शीर्ष दस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों में शामिल हो जाएगा। श्रीनिवास ने कहा, हर कोई भारत में बहुत रुचि रखता है और गिफ्ट सिटी के बारे में अधिक जानना चाहता है। गिफ्ट सिटी स्थित आईएफएससी एक बहु-सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र है। इसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं की जरूरतें पूरी करने के इरादे से विकसित

सुविधा में लाया जाएगा।

DL7SD6370, DL8SQ7440, पश्पति एक्रिलॉन लिमिटेड CIN: L50102UP1982PLC015532

पंजीकृत कार्यालय : काशीपुर रोड, ठाकुरद्वारा, जिला मोरादाबाद (उ. प्र.) कॉरपोरेट कार्यालय : एम—14, कर्नेट सर्कस (मिडिल सर्कल) नई दिल्ली—110 001, फोन नं. : 91-11-47627400, फैक्स नं. : 91-11-47627497

30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही एवं अर्घ वर्ष हेत्

अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण										
	ि	तमाही समा (अपरीक्षित)		अर्घ वर्ष (अपर्र	वर्ष समाप्त (परीक्षित)					
	30.09.2022 समीक्षात	30.06.2022 समीक्षित	30.09.2021 समीक्षात	30.09.2022 समीक्षात	30.09.2021 समीक्षित	31.03.2022 परीक्षित				
. असाधारण या / और	208.41	252.46	178.09	460.87	301.86	784.27				
, असाधारण या / और	5.77	14.69	18.45	20.46	40.92	61.83				
लाम (असाधारण या / और	5.77	14.69	18.45	20.46	40.92	61.83				
	4.32	10.93	13.78	15.25	30.42	45.89				

परिचालनों से कुल आय अवधि हेतु शुद्ध लाम (कर, असाधारण मदों के बाद) असाधारण मदों के बाद) अवधि हेतु कर के बाद शुद्ध असाधारण मदों के बाद) अविधि हेतु कुल व्यापक आय (अविधि हेतु लाभ (कर के बाद) शामिल एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)) चुकता इकिवटी शेयर पूंजी (अकित मूल्य रू. 10/- प्रति) 15.34 46.05 89.14 89.14 अन्य इक्विटी (पुनर्मूरूयांकन रिजर्व को छोड़कर) आय प्रति शेयर (रू. 10/- प्रति) 190.38

नोट : उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। वित्तीय परिणामों का सम्मपूर्ण प्रारूप कम्पनी की वेवसाईट (www.pasupatiacrylon.com गौर बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडियों लिमिटेड (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

कृते पश्पति एक्रिलॉन लिमिटेड थान : नई दिल्ली (हस्ता./—) **विनीत् जैन** देनांक : 12 नवंबर, 2022